

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 338] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 11, 1978/आषाढ 20, 1900
No. 338] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 11, 1978/ASADHA 20, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 1978

का. आ. 441 (आ).—लांक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में निम्नलिखित घोषणा, जिसमें ऐसे सदस्य के, जो राज्य सभा में संघ राज्य क्षेत्र मिजोरम का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपनी पदावधि के अवसान पर 16 जुलाई, 1978 को निवृत्त हो जाएंगे, स्थान को भरने के लिए नियुक्त अभ्यर्थी का नाम दिया हुआ है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :—

घोषणा

मिज़ोरम संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन ।

“निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम, 11 के उप नियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि जोरकॉट, चांदमारी, ऐंजल (मिज़ोरम) के श्री लालसाबिया उस सदन में एक सदस्य के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 16 जुलाई, 1978 को निवृत्त हो रहे हैं, स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान : ऐंजल

डी. सी. पाण्डेय, रिटर्निंग ऑफिसर

राज्य सभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन, 1978 मिज़ोरम”

[सं. क्र. 13(1)/78-वि. 11(जिस्ट-4)]

ई. वेंकटेश्वरन संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 1978

S.O. 441 (E).—In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected to fill the seat of the member representing the Union Territory of Mizoram in the Council of States who will be retiring on the 16th July, 1978, on the expiration of his term of office, is published for general information :—

DECLARATION

Election to the Council of States by the members of the electoral college of Mizoram Union Territory.

“In pursuance of the provisions contained in sub-section (2) of section 53 of the Representation of the People Act, 1951, read with sub-rule (1) of Rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that Shri Lalsawia of Zorkawt, Chandmari, Aizawl (Mizoram) has been duly elected to fill the seat in that House of one member retiring on the 16th July, 1978 on the expiration of his term of office.

Place : Aizawl

Sd/-

Date : 26th June, 1978

D. C. PANDE, Returning Officer
Biennial Election to the Council of States, 1978
Mizoram.”

[No. F. 13(1)/78-Leg. II, Vol. (IV)]

E. VENKATESWARAN, Jt. Secy.